

पी.एम.श्री केंद्रीय विद्यालय सुन्दरगढ़

ग्राम-भवानीपुर, डाकघर-संकरा

जिला-सुन्दरगढ़ (ओडिशा)

पिन-770020, दूरभाष-06622-273046

वेबसाइट- <https://sundargarh.kvs.ac.in/>



PM SHRI Kendriya Vidyalaya Sundargarh

At: Bhawanipur, PO: Sankara

Dist: Sundargarh (Odisha)

PIN:770020, Ph: 06622-273046

E-mail ID: [kvsundargarh@gmail.com](mailto:kvsundargarh@gmail.com)

CBSE School Affiliation No:1500025

F.150331/KV-SNG/2024-25/1190/

Date: 27.08.2024

## CORRIGENDUM - NOTICE FOR ADMISSION

### Registration for Admission in Class-II,III,IV,VI,VII & VIII

AS per video conference by honourable Deputy Commissioner, KVS RO Bhubaneswar on 27.08.2024 at 3.30 pm and letter no. **F.110331/EDPOLA/1/2024-25/Academic dated:25/08/2024** received from KVS(HQ) New Delhi, registration forms are available in PM SHRI Kendriya Vidyalaya Sundargarh for fresh admission in **Classes-II,III,IV,VI,VII & VIII** only for the session **2024-2025 as a few seats are lying vacant. There are no vacancies in other classes**. Interested parents of only **central government transferable/non-transferable/autonomous organization** desirous of seeking admission of their wards in the above mentioned classes can collect the registration forms from the Vidyalaya office on **28.08.2024** between **8.00 am to 2.00 pm free of cost**. The same may be downloaded from the website <https://sundargarh.kvs.ac.in>.

The age of child as on 31.03.2024 for eligibility is as follows:

Class	Minimum/Maximum age as on 31 <sup>st</sup> March 2024
II	7 years but less than 09 years of age
III	8 years but less than 10 years of age
IV	8 years but less than 10 years of age
VI	10 years but less than 12 years of age
VII	11 years but less than 13 years of age
VIII	12 years but less than 14 years of age

\*The following valid documents are to be enclosed along with the Application forms:

1. Proof of Date of Birth (Birth Certificate)
2. Proof of Caste Certificate in respect of ST/SC/OBC from the competent authority.
3. Residential /Nativity Certificate from the competent authority.
4. Service certificate for employees.(should be signed by the employer)
5. Form showing number of transfers held in the last 07 years.
6. Copy of Aadhaar Card of child.
7. Blood Group of child concerned.
8. Passport size colour photo.

1.Issue of Registration Forms : 28.08.2024 between 08:00 am to 2:00 pm( Offline Mode )

2.Last date for receipt of


Registration Forms : 28.08.2024 (08:00am to 2:00 pm in offline mode ).

3. Declaration of Selection List : 29.08.2024 .

Short listing and reservation of seats will be as per KVS Admissions Guidelines available on the website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

If any clarification, please contact help desk Numbers – 7978761618, 9861310647 between 9 am to 11 am on working days.

I/C ADMISSION

  
PRINCIPAL  
PM SHRI KV SUNDARGARH  
Sundargarh (Odisha)



केन्द्रीय विद्यालय \_\_\_\_\_, सम्भाग \_\_\_\_\_

Kendriya Vidyalaya \_\_\_\_\_, Region \_\_\_\_\_

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

## पंजीकरण प्रपत्र/Registration Form

Class :  Reg. No. : Paste latest  
Photograph of  
Child

## 1. विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में )

Name of the Child in full (in Capital letters): .....

लिंग / Sex : पुरुष / Male  स्त्री / Female  तृतीय लिंग / Third Gender 2. जन्म तिथि (अंकों में) / Date of Birth (in figure) : दिन / Day  मास / Month  वर्ष / Year 

शब्दों में / In words : .....

3. 31.03.202 तक आयु/ Age as on 31.03.202 वर्ष / Year  मास / Month  दिन / Day 4. बच्चे का रक्त समूह ( Rh फैक्टर सहित) / Blood Group of the Child (With Rh Factor) : 5. बच्चे की सम्बंधित श्रेणी General SC ST OBC-CL OBC-NCL EWS BPL Diff. Abled SG Child (Attach Certificate\*)  
Category to which child belong:         

6. आधार कार्ड नंबर/Aadhar Card Number:.....

7. माता पिता का विवरण/Details of Mother&amp; Father:

क्र.सं. S.No.	माता/Mother	पिता / Father
(i)	नाम (स्पष्ट शब्दों में)/ Name ( In Capital Letter)	
(ii)	राष्ट्रीयता (Nationality)	
(iii)	व्यवसाय (Occupation)	
(iv)	कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number.	
(v)	पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित)/ Full Residential Address & Telephone No. (With Proof)	
(vi)	विद्यालय से दूरी (कि.मी. में)/Distance from KV in KM.	
(vii)	मूल वेतन / Basic Pay	
(viii)	पिछले 7 वर्षों में स्थानान्तरण की संख्या/ No of Transfers in last 7 years (As on 31/03/2020)	
(ix)	माता-पिता की सेवा श्रेणी/ Service Category of Parent	
(x)	कर्मचारी कोड (यदि है तो )/ Emp. Code (If Any)	
(xi)	E-Mail Id:	

- I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

दिनांक/Date:

अभिभावक के हस्ताक्षर/Signature of Guardian

सेवा प्रमाण-पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(केन्द्रीय सरकार/Central Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----, पर-----

कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/एस.एस.बी./असम राइफल्स/आई.टी.बी.पी/सीमा सुरक्षा बल/एन.एस.जी./एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ./केन्द्रीय सरकार स्वायत्त सस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार से वित्त-पोषित है, के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....Designation.....is working as regular employee in the office/Ministry of ..... He/She is a regular employee of Defence Service /ITBP/ CRPF/BSF/NSG/SPG/CISF/SSB/Assam Rifles/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed /partially financed by Central Govt. and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in india

स्थान/Place \_\_\_\_\_

दिनांक/Date \_\_\_\_\_

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर  
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

Signature of Head of the Office  
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या \_\_\_\_\_

Complete address and Telephone No. of office \_\_\_\_\_

सेवा प्रमाण-पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(राज्य-सरकार/State Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----, -----  
-----कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt..... is permanently working in the office/Ministry of ..... and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in State.

स्थान/Place \_\_\_\_\_

दिनांक/Date \_\_\_\_\_

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर  
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

Signature of Head of the Office  
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या \_\_\_\_\_

Complete address and Telephone No. of office \_\_\_\_\_

**स्थानांतरण संख्या प्रमाण-पत्र/CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS**

मैं, \_\_\_\_\_ (नाम) \_\_\_\_\_ (रैंक/पदनाम) \_\_\_\_\_ (कार्यालय),  
 एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ पिछले सात साल (31.03.2022 तक) मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे  
 \_\_\_\_\_ (अंको व शब्दों में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है-

I, \_\_\_\_\_ (Name) \_\_\_\_\_ (rank/ designation) of \_\_\_\_\_ (office), do  
 hereby certify that during the past 7 years (up to 31.03.2022) I have been transferred \_\_\_\_\_  
 times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under :-

क्र. स. S. No.	कार्यालय/ यूनिट Office/Unit	स्थान Place	रैंक/पदनाम Rank/Designation	दिनांक/Date		ठहरने की अवधि Period of stay	आदेश संख्या Order No.
				से/ From	तक/To		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

मैं जानता/जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए  
 अयोग्य हो जाएगा। I know that if the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for  
 admission in Kendriya Vidyalaya.

माता/पिता के हस्ताक्षर  
 Signature of Parent

**प्रतिहस्ताक्षर/Countersignature**

मैं, \_\_\_\_\_ (नाम) \_\_\_\_\_ (रैंक/पदनाम) \_\_\_\_\_  
 (कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय-आलेखों से जाँच लिया गया है व सही  
 पाया गया है।

I, \_\_\_\_\_ (name) \_\_\_\_\_ (rank/designation) of \_\_\_\_\_  
 (unit/department) hereby certify that the particulars given in above have been authenticated by the records held in  
 the office and found correct.

स्थान/Place \_\_\_\_\_

दिनांक/Date \_\_\_\_\_

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर  
 (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)  
 Signature of Head of the Office  
 (With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या \_\_\_\_\_

Complete address and Telephone No. of office \_\_\_\_\_

**टिपण्णी/Note-**

एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए।  
 Period of posting/stay at a place should be minimum six months.

सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE  
(केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए/Only for Central Govt. Employees)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी ----- स्वर्गीय  
श्री/श्रीमती -----के पुत्र/पुत्री हैं जो -----  
(कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे/थीं और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में  
दिनांक -----को हो गया था।

Certified that Master/Miss \_\_\_\_\_ is the son/daughter of Late Sh./Smt.  
\_\_\_\_\_ who was regular employee of \_\_\_\_\_  
(Office/Department) and he/she died in harness (while in service) on \_\_\_\_\_ (date).

स्थान/Place \_\_\_\_\_  
दिनांक/Date \_\_\_\_\_

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर  
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)  
Signature of Head of the Office  
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या \_\_\_\_\_  
Complete address and Telephone No. of office \_\_\_\_\_